

Combined Higher Secondary Level Examination 2019 Tier I

Roll Number	
Candidate Name	
Venue Name	iON Digital Zone iDZ Laxman Nagar
Exam Date	17/03/2020
Exam Time	10:00 AM - 11:00 AM
Subject	CHSL Tier 1

mpcareer.in

Section : English Language (Basic Knowledge)

Q.1 Select the most appropriate synonym of the given word.

TRUST (n)

- Ans
- 1. Ability
 - 2. Welfare
 - 3. Safety
 - 4. Belief

Question ID : 8161611290
Status : Answered
Chosen Option : 4

Q.2 Select the most appropriate ANTONYM of the given word.

EXTENSIVE

- Ans
- 1. Elaborate
 - 2. Intricate
 - 3. Lengthy
 - 4. Intensive

Question ID : 8161611282
Status : Answered
Chosen Option : 4

Q.3 Select the word with the incorrect spelling.

- Ans
- 1. Quantity
 - 2. Argument
 - 3. Quarrell
 - 4. Aisle

Question ID : 8161611286
Status : Answered
Chosen Option : 3

Q.4 Select the most appropriate option to fill in the blank.

Several environmentalists from the city conducted a meet to discuss issues related to the _____ pollution levels created by the growing number of pharmaceutical companies.

Ans

- 1. raise in
- 2. rising from
- 3. raising of
- 4. rise in

Question ID : 8161611293

Status : Answered

Chosen Option : 4

Comprehension:

In the following passage some words have been deleted. Fill in the blanks with the help of the alternatives given. Select the most appropriate option for each blank.

One of the most fascinating archaeological sites in Maharashtra, the Ellora Caves, date back (1)_____ about 1,500 years ago, and (2)_____ the epitome of Indian rock-cut architecture. (3)_____ 34 caves are actually Buddhist, Hindu and Jain religious monuments (4)_____ in the rock. They were given the (5)_____ of World Heritage Site in 1983. Created between the 6th and 10th century, the 12 Buddhist, 17 Hindu and 5 Jain caves carved in proximity at Ellora are proof of the religious harmony prevalent during this period of Indian history.

SubQuestion No : 5

Q.5 Select the most appropriate option to fill in blank No.1.

Ans

- 1. to
- 2. at
- 3. for
- 4. in

Question ID : 8161611273

Status : Answered

Chosen Option : 1

Comprehension:

In the following passage some words have been deleted. Fill in the blanks with the help of the alternatives given. Select the most appropriate option for each blank.

One of the most fascinating archaeological sites in Maharashtra, the Ellora Caves, date back (1)_____ about 1,500 years ago, and (2)_____ the epitome of Indian rock-cut architecture. (3)_____ 34 caves are actually Buddhist, Hindu and Jain religious monuments (4)_____ in the rock. They were given the (5)_____ of World Heritage Site in 1983. Created between the 6th and 10th century, the 12 Buddhist, 17 Hindu and 5 Jain caves carved in proximity at Ellora are proof of the religious harmony prevalent during this period of Indian history.

SubQuestion No : 6

Q.6 Select the most appropriate option to fill in blank No.2.

- Ans 1. are
 2. were
 3. be
 4. is

Question ID : **8161611274**

Status : **Answered**

Chosen Option : **4**

Comprehension:

In the following passage some words have been deleted. Fill in the blanks with the help of the alternatives given. Select the most appropriate option for each blank.

One of the most fascinating archaeological sites in Maharashtra, the Ellora Caves, date back (1)_____ about 1,500 years ago, and (2)_____ the epitome of Indian rock-cut architecture. (3)_____ 34 caves are actually Buddhist, Hindu and Jain religious monuments (4)_____ in the rock. They were given the (5)_____ of World Heritage Site in 1983. Created between the 6th and 10th century, the 12 Buddhist, 17 Hindu and 5 Jain caves carved in proximity at Ellora are proof of the religious harmony prevalent during this period of Indian history.

SubQuestion No : 7

Q.7 Select the most appropriate option to fill in blank No.3.

- Ans 1. An
 2. Many
 3. Few
 4. The

Question ID : **8161611275**

Status : **Answered**

Chosen Option : **4**

Comprehension:

In the following passage some words have been deleted. Fill in the blanks with the help of the alternatives given. Select the most appropriate option for each blank.

One of the most fascinating archaeological sites in Maharashtra, the Ellora Caves, date back (1)_____ about 1,500 years ago, and (2)_____ the epitome of Indian rock-cut architecture. (3)_____ 34 caves are actually Buddhist, Hindu and Jain religious monuments (4)_____ in the rock. They were given the (5)_____ of World Heritage Site in 1983. Created between the 6th and 10th century, the 12 Buddhist, 17 Hindu and 5 Jain caves carved in proximity at Ellora are proof of the religious harmony prevalent during this period of Indian history.

SubQuestion No : 8

Q.8 Select the most appropriate option to fill in blank No.4.

- Ans 1. carved
 2. created
 3. erected
 4. constructed

Question ID : **8161611276**

Status : **Answered**

Chosen Option : **1**

Comprehension:

In the following passage some words have been deleted. Fill in the blanks with the help of the alternatives given. Select the most appropriate option for each blank.

One of the most fascinating archaeological sites in Maharashtra, the Ellora Caves, date back (1)_____ about 1,500 years ago, and (2)_____ the epitome of Indian rock-cut architecture. (3)_____ 34 caves are actually Buddhist, Hindu and Jain religious monuments (4)_____ in the rock. They were given the (5)_____ of World Heritage Site in 1983. Created between the 6th and 10th century, the 12 Buddhist, 17 Hindu and 5 Jain caves carved in proximity at Ellora are proof of the religious harmony prevalent during this period of Indian history.

SubQuestion No : 9

Q.9 Select the most appropriate option to fill in blank No.5.

- Ans 1. symbol
 2. role
 3. status
 4. function

Question ID : **8161611277**

Status : **Answered**

Chosen Option : **3**

Q.10 Given below are four jumbled sentences. Select the option that gives their correct order.

- A. "It is mine. I saw it first," claimed one cat.
- B. Suddenly they spotted a loaf of bread lying beneath a tree.
- C. Once upon a time, two cats were passing through a street.
- D. Both pounced upon it and caught the loaf at the same time.

- Ans
- 1. DBCA
 - 2. BADC
 - 3. CBDA
 - 4. ADBC

Question ID : 8161611278
Status : Answered
Chosen Option : 3

Q.11 Select the most appropriate meaning of the underlined idiom in the given sentence.

A lot of work has gone onbehind the scenes for the special event which is being planned next week.

- Ans
- 1. Unknown to everyone
 - 2. To complete the arrangements
 - 3. For spreading the news
 - 4. In the theatre

Question ID : 8161611285
Status : Answered
Chosen Option : 1

Q.12 Select the segment in the sentence, which contains the grammatical error.

Did you know whether we can exchange the dress if my sister doesn't like it?

- Ans
- 1. doesn't like it
 - 2. we can exchange the dress
 - 3. if my sister
 - 4. Did you know whether

Question ID : 8161611270
Status : Answered
Chosen Option : 4

Q.13 Select the alternative that will improve the underlined part of the sentence. In case there is no improvement select 'No improvement'.

Harry and Meghan have decided to work and become financially independent.

- Ans
- 1. have decided to work and became
 - 2. No improvement
 - 3. has decided to work and become
 - 4. have decide to work and become

Question ID : 8161611281
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.14 Select the most appropriate synonym of the given word.

ALLURING

- Ans
- 1. Distracting
 - 2. Cheating
 - 3. Attractive
 - 4. Deceitful

Question ID : 8161611291
Status : Answered
Chosen Option : 3

Q.15 Select the most appropriate meaning of the underlined idiom.

Hats off to someone

- Ans
- 1. Give hats to
 - 2. Make new hats for
 - 3. Announce a prize for
 - 4. Congratulations to

Question ID : 8161611284
Status : Answered
Chosen Option : 4

Q.16 Select the word which means the same as the group of words given.

A large natural or artificial lake used as a source of water supply

- 1. Pool
- 2. Reservoir
- 3. Creek
- 4. Pond

Question ID : 8161611289
Status : Answered
Chosen Option : 2

Ans

Q.17 Select the most appropriate ANTONYM of the given word.

ABBREVIATE

- Ans
- 1. Challenge
 - 2. Expand
 - 3. Oppose
 - 4. Dispute

Question ID : 8161611283
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.18 Select the option that is the direct form of the sentence.

The doctor advised Jaya to put the eye drops into her eyes four times a day from the next day.

- 1. The doctor advised Jaya, "From tomorrow put the eye drops into her eyes four times a day."
- 2. The doctor advises Jaya, "From the next day put the eye drops into your eyes fourtimes a day."
- 3. The doctor advised Jaya, "From tomorrow put the eye drops into your eyes fourtimes a day."
- 4. The doctor had advised Jaya, "From the next day you put the eye drops into youreyes four times a day."

Question ID : 8161611269

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.19 Select the option that is the passive form of the sentence.

The sub-committee is presenting its report in a week's time.

- 1. The report of the sub-committee has been presented in a week's time.
- 2. The report of the sub-committee is being presented in a week's time.
- 3. The report of the sub-committee had been presented in a week's time.
- 4. The report of the sub-committee is presenting in a week's time.

Question ID : 8161611268

Status : Answered

Chosen Option : 2

Ans

Q.20 Given below are four jumbled sentences. Select the option that gives their correct order.

- A. Ibn Al-Haitham wrote a book in seven volumes namely 'Kitāb al-Manāẓir' also known as 'The Book of Optics.'
- B. However, during the medieval period, the notable work of an Arab writer and scientist, IbnAl-Haitham revolutionised the concept of physics.
- C. During the ancient period, the development of Physics took place simultaneously withthe development of astronomy.
- D. In this book, Ibn Al-Haitham disproved the ancient Greek concept of vision andintroduced a new theory.

Ans 1. CBAD

2. ACBD

3. ADBC

4. BCDA

Question ID : 8161611279

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.21 Select the most appropriate option to fill in the blank.

Astronomy enthusiasts and sky gazers will be able to watch six eclipses in 2020, but only three of them are expected to be _____ in India.

Ans

- 1. revealed
- 2. exposed
- 3. visible
- 4. evident

Question ID : 8161611292
Status : Answered
Chosen Option : 3

Q.22 Select the word which means the same as the group of words given.

Close fitting cover for a sword or knife

Ans

- 1. Screen
- 2. Sheath
- 3. Shield
- 4. Guard

Question ID : 8161611288
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.23 Select the alternative that will improve the underlined part of the sentence. In case there is no improvement select 'No improvement'.

I had no informations about the bank strike so I went there yesterday.

- 1. No improvement
- 2. no informations concerning
- 3. not got informations about
- 4. no information about

Question ID : 8161611280
Status : Answered
Chosen Option : 4

Ans

Q.24 Select the wrongly spelt word.

Ans

- 1. Extinct
- 2. Expedition
- 3. Experiment
- 4. Extempore

Question ID : 8161611287
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.25 Select the segment in the sentence, which contains the grammatical error.

They had to wait for the luggages to be put into the cab before they themselves got into it.

- Ans
- 1. before they themselves got into it
 - 2. They had to wait
 - 3. for the luggages
 - 4. to be put into the cab

Question ID : 8161611271

Status : Answered

Chosen Option : 3

Section : General Intelligence

Q.1 दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही अक्षर-समूह का चयन करें।

_bac_ac_acb__ba


- Ans
- 1. c, b, b, a, c
 - 2. a, c, c, b, b
 - 3. a, b, b, a, c
 - 4. c, a, b, b, c

Question ID : 8161611304

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.2 उस संख्या का चयन करें, जो दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक चिह्न (?) के स्थान पर आ सकती है।



- Ans
- 1. 23
 - 2. 17
 - 3. 21
 - 4. 31

Question ID : 8161611298

Status : Answered

Chosen Option : 4


Q.3 दर्पण को PQ रेखा पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण छवि का चयन करें।

प्रश्न आकृति:




Ans

✓ 1.




✗ 2.



✗ 3.



✗ 4.



Question ID : 8161611317

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.4 यदि '#' का अर्थ '-' है, '&' का अर्थ '+' है, '@' का अर्थ '×' और '+' का अर्थ '+' है,
तो $15 @ 2 \div 900 \& 30 \# 10 = ?$

Ans

✓ 1. 50

✗ 2. 310

✗ 3. 21

✗ 4. 600

Question ID : 8161611295

Status : Answered

Chosen Option : 1


Q.5 उस विकल्प का चयन करें, जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है।

EC, H, HF, N, KI, U

- Ans
- 1. U
 - 2. N
 - 3. HF
 - 4. EC

Question ID : 8161611309
Status : Answered
Chosen Option : 1

Q.6 दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें।



- Ans
- 1. 28
 - 2. 24
 - 3. 18
 - 4. 46

Question ID : 8161611314
Status : Answered
Chosen Option : 1

Q.7 किसी निश्चित कूट भाषा में, RUMMY को QVLNX लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में CHESS को क्या लिखा जाएगा?

- Ans
- 1. BGFTR
 - 2. BGDTR
 - 3. BIDTR
 - 4. BIFRT

Question ID : 8161611302
Status : Answered
Chosen Option : 3

Q.8 चार शब्द दिए गए हैं, जिनमें से तीन किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है। उस असंगत शब्द का चयन करें।

- Ans
- 1. चीख
 - 2. काँव-काँव
 - 3. कलरव
 - 4. बछेड़ा

Question ID : 8161611310

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.9 उस विकल्प का चयन करें, जिसमें दी गई प्रश्न-आकृति अंतर्निहित है। (घुमाने की अनुमति नहीं है)

प्रश्न आकृति:



Ans

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Question ID : 8161611315

Status : Answered

Chosen Option : 3

उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है, जो संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द से है।

Q.10 किसान : खेत :: कलाकार : ?

- Ans
- 1. थिएटर
 - 2. अभिनेता
 - 3. ऐक्शन
 - 4. नायक

Question ID : 8161611308

Status : Answered

Chosen Option : 1

उस विकल्प का चयन करें, जिसका तीसरे पद से वही संबंध है, जो संबंध दूसरे पद का पहले पद से है।

Q.11 CAG : GEK :: HEL : ?

- Ans
- LIP ^{1.}
 - GAC ^{2.}
 - INP ^{3.}
 - LEP ^{4.}

Question ID : 8161611305
Status : Answered
Chosen Option : 1

उस संख्या का चयन करें, जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिह्न (?) के स्थान पर आ सकती है।

Q.12 126, 217, 344, ?

- Ans
- 729 ^{1.}
 - 512 ^{2.}
 - 521 ^{3.}
 - 513 ^{4.}

Question ID : 8161611299
Status : Answered
Chosen Option : 4

Q.13 उस संख्या का चयन करें, जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिह्न (?) के स्थान पर आ सकती है।

213, 217, 233, 269, ?

- Ans
- 1. 333
 - 2. 312
 - 3. 428
 - 4. 296

Question ID : 8161611301
Status : Answered
Chosen Option : 1

चार संख्याएँ दी गई हैं, जिनमें से तीन किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है। उस असंगत संख्या का चयन

Q.14 करें।

- Ans
- 676 ^{1.}
 - 144 ^{2.}
 - 81 ^{3.}
 - 256 ^{4.}

Question ID : 8161611300
Status : Answered
Chosen Option : 3

उस अक्षर का चयन करें, जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिह्न (?) के स्थान पर आ सकता है।

Q.15 A, C, E, D, C, E, G, F, ?

Ans H 1.

D 2.

E 3.

C 4.

Question ID : 8161611306

Status : Answered

Chosen Option : 3

P, Q का भाई है। R, Q की पुत्री है। S, P की बहन है। Q, S की बहन है। T, R का भाई है। T का

Q.16 मामा कौन है?

Ans Q 1.

C 2.

P 3.


S 4.

Question ID : 8161611307

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.17 एक ही पासे की तीन विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। उस संख्या का चयन करें, जो संख्या 5 अंकित फलक के विपरीत फलक पर होगी।



Ans 1. 4

2. 1

3. 6

4. 3

Question ID : 8161611312

Status : Answered





Chosen Option : 2

Q.18 कागज़ के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मोड़े गए कागज़ को काटने की विधि प्रश्न आकृतियों में दर्शायी गई है। कागज़ को पुनः खोलने पर यह कैसा दिखेगा?

प्रश्न आकृति:



Ans




Question ID : 8161611316

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.19 In the given Venn diagram, A denotes mangoes, B denotes bananas, C denotes apples, and the numbers in each section represent the number of persons who like those fruits. How many persons like only bananas?



Ans ✓ 1. 31

✗ 2. 33

✗ 3. 7

✗ 4. 38


Question ID : 8161611318

Status : Answered

Chosen Option : 1

उस आकृति का चयन करें, जो नीचे दी गई आकृति-श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिह्न (?) के स्थान पर आ सकती है।

प्रश्न आकृति:



Q.20




1.




Ans



2.



3.



4.



Question ID : 8161611313

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.21 उस विकल्प का चयन करें, जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से है।

27 : 125 :: 343 : ?

Ans



1. 1000



2. 512



3. 729



4. 1343

Question ID : 8161611296

Status : Answered

Chosen Option : 3

दिए गए चार समीकरणों में से, पहले तीन किसी निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किये गए हैं। उसी प्रणाली के आधार पर, हल न किए गए चौथे समीकरण के लिए सही उत्तर ज्ञात करें।

$$6 * 5 = 91$$

$$8 * 7 = 169$$

$$10 * 7 = 211$$

Q.22 $22 * 5 = ?$

Ans 845_{1.}

993_{2.}

678_{3.}

331_{4.}

Question ID : 8161611294

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.23 उस संख्या का चयन करें, जो नीचे दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक चिह्न (?) के स्थान पर आ सकती है।

10 17 8

5 3 15

6 14 ?

42 68 92

Ans 1. 46

2. 25

3. 23

4. 10

Question ID : 8161611297

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.24 If 683 is coded as FOX, 654 is FIN, 4581 is NIOC, then what will be the code of 654513?

Ans FINICX_{1.}

FINNCX_{2.}

FIXICN_{3.}

FNINXC_{4.}

Question ID : 8161611303

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.25 Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statements.

Statements:

All woods are roots.

All fruits are roots.

No woods are a fruit.

Conclusion:

(I) Some roots are fruits.

(II) All roots are woods.

- Ans**
- 1. Neither conclusion I nor conclusion II follows
 - 2. Both conclusion I and II follows
 - 3. Only conclusion I follows.
 - 4. Only conclusion II follows.

Question ID : 8161611311

Status : Answered

Chosen Option : 3

Section : Quantitative Aptitude(Basic Arithmetic Skill)

Q.1 $\frac{\cos 30^\circ - \sin 30^\circ}{\sin 60^\circ + \cos 60^\circ}$ का मान ज्ञात करें।

- Ans**
- 1. $2 + \sqrt{3}$
 - 2. $2 - \sqrt{3}$
 - 3. $1 - \sqrt{3}$
 - 4. $1 + \sqrt{3}$

Question ID : 8161611337

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.2 $\frac{(132 + 12 \times x - 3 \times 3)}{(5^2 - 6 \times 4 + x^2)} = 1$ में x , ($x < 10$) की जगह पर क्या आएगा?

- Ans**
- 1. 4
 - 2. 3
 - 3. 1
 - 4. 2

Question ID : 8161611336

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.3 एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 3 cm और 8 cm हैं। यदि तीसरी भुजा की लंबाई 'x' cm हो, तो निम्न में से कौन-सा विकल्प सही है?

- Ans
- 1. $5 < x < 11$
 - 2. $x > 11$
 - 3. $5 < x$
 - 4. $0 < x < 11$

Question ID : 8161611330

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.4 सचिन की आय, दिलीप की आय से 25% अधिक है। दिलीप की आय, सचिन की आय से कितने प्रतिशत कम है?


- Ans
- 1. 22%
 - 2. 15%
 - 3. 20%
 - 4. 18%

Question ID : 8161611324

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.5 दिया गया बार ग्राफ 6 राज्यों A, B, C, D, E और F में गैर-विद्युतीकृत गांवों के प्रतिशत को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें और उससे संबंधित प्रश्न का उत्तर दें।



कितने राज्यों में अधिकतम 30% या उससे कम गैर-विद्युतीकृत गाँव हैं?

- Ans
- 1. 3
 - 2. 1
 - 3. 2
 - 4. 4

Question ID : 8161611340

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.6 4 : 7 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि यह 2 : 3 हो जाए?

- Ans
- 1. 3
 - 2. 1
 - 3. 4
 - 4. 2

Question ID : 8161611326
Status : Answered
Chosen Option : 4

Q.7 यदि $\sec^2 x - 3\sec x + 2 = 0$ है, तो $x(0 < x < 90^\circ)$ का मान क्या होगा?

- Ans
- 1. 60°
 - 2. 45°
 - 3. 15°
 - 4. 30°

Question ID : 8161611339
Status : Answered
Chosen Option : 1

Q.8 यदि $\operatorname{cosec}\theta + \cot\theta = 2$ है, तो $\sin\theta$ का मान ज्ञात करें।

- Ans
- 1. $\frac{2}{5}$
 - 2. $\frac{3}{4}$
 - 3. $\frac{3}{5}$
 - 4. $\frac{4}{5}$


Question ID : 8161611338
Status : Answered
Chosen Option : 4

Q.9 यदि $a^3 + b^3 = 20$ और $a + b = 5$, तो $a^4 + b^4$ का मान ज्ञात करें।

- Ans
- 1. 25
 - 2. 24
 - 3. 26
 - 4. 23

Question ID : 8161611333
Status : Answered
Chosen Option : 4

Q.10 Study the following graph and answer the question.



In which year was the value per tonne the minimum?


- Ans
- 1. 2005
 - 2. 2007
 - 3. 2006
 - 4. 2009

Question ID : 8161611343

Status : Answered

Chosen Option : 1

दी गई आकृति में, जीवाएं AB और CD एक-दूसरे को बिंदु L पर प्रतिच्छेदित करती हैं। AB की लंबाई ज्ञात करें।



Q.11

- Ans
- 1. 21.5 cm
 - 2. 23.5 cm
 - 3. 24.5 cm
 - 4. 22.5 cm

Question ID : 8161611329

Status : Answered

Chosen Option : 1

एक धनराशि पर 8 वर्षों और 10 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर ₹200 है। अगर ब्याज की दर 10% वार्षिक है, तो मूलधन कितना है?

Q.12

- Ans
- 1. ₹1,400
 - 2. ₹1,000
 - 3. ₹1,600
 - 4. ₹1,200

Question ID : 8161611327

Status : Answered

Chosen Option : 2

एक दुकानदार अपने सामानों पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। फिर वह इन सामानों को 35% की छूट पर बेचता है। उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें।

Q.13

- Ans
- 1. 17.5%
 - 2. 18.5%
 - 3. 16.5%
 - 4. 15.5%

Question ID : 8161611323

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.14 सोहन एक प्लॉट को 15% की हानि पर ₹2,55,000 में बेचता है। 10% लाभ कमाने के लिए उसे इस प्लॉट को कितने मूल्य में बेचना चाहिए था?

- Ans
- 1. ₹3,33,300
 - 2. ₹3,00,000
 - 3. ₹3,30,000
 - 4. ₹3,33,000

Question ID : 8161611325

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.15 वृत्त के केंद्र से, 24 cm लंबाई वाली जीवा पर 5 cm लंबाई वाला एक लंब खींचा जाता है। वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए।

- Ans
- 1. 32 cm
 - 2. 26 cm
 - 3. 13 cm
 - 4. 30 cm

Question ID : 8161611328

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.16 दो संख्याओं के बीच का अंतर 43 और उनका गुणनफल 50 है। उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए।

- Ans 1949 ^{1.}
 1946 ^{2.}
 1948 ^{3.}
 1947 ^{4.}

Question ID : 8161611332

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.17 एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 77 रन बनाता है, जिससे उसका औसत स्कोर 3 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है?

- Ans 48 ^{1.}
 49 ^{2.}
 47 ^{3.}
 46 ^{4.}

Question ID : 8161611322

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.18 यदि $\triangle ABC$ की भुजा BC का मध्य बिंदु M हो, और $\triangle ABM$ का क्षेत्रफल 18 cm^2 हो, तो $\triangle ABC$ का क्षेत्रफल ज्ञात करें।


- Ans 1. 32 cm^2
 2. 30 cm^2
 3. 36 cm^2
 4. 34 cm^2

Question ID : 8161611331

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.19 दिए गए बार ग्राफ में वर्ष 1992 में वर्षा ऋतु के दौरान हुई सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की संख्या दर्शायी गई है। ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें।



कौन-से दो क्रमिक सप्ताहों के बीच मौतों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी?

Ans

- 1. 14 जुलाई से 21 जुलाई
- 2. 30 जून से 7 जुलाई
- 3. 21 जुलाई से 28 जुलाई
- 4. 4 अगस्त से 11 अगस्त

Question ID : 8161611342

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.20 X और Y एक साथ मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि Y अकेले इस काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। X को अकेले यह काम करने में कितने दिन लगेंगे?

Ans

- 1. 24 दिन
- 2. 23 दिन
- 3. 25 दिन
- 4. 26 दिन

Question ID : 8161611319

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.21 एक आदमी 20 km/h की चाल से X से Y स्थान पर जाता है, लेकिन Y से X स्थान पर 25 km/h की चाल से वापस आता है। उसकी औसत चाल ज्ञात करें।

Ans

- 1. $25\frac{2}{9}$ km/h
- 2. $23\frac{2}{9}$ km/h
- 3. $24\frac{2}{9}$ km/h
- 4. $22\frac{2}{9}$ km/h

Q.22 If $x + y = 4$, $xy = 2$, $y + z = 5$, $yz = 3$, $z + x = 6$ and $zx = 4$, then find the value of $x^3 + y^3 + z^3 - 3xy$.

- Ans 151.75 ^{1.}
 153.75 ^{2.}
 152.75 ^{3.}
 150.75 ^{4.}

Question ID : 8161611334

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.23 निम्न में से कौन-सी संख्या $7^{81} + 7^{82} + 7^{83}$ को पूर्णतः विभाजित कर देगी?

- Ans 399 ^{1.}
 387 ^{2.}
 389 ^{3.}
 397 ^{4.}


Question ID : 8161611335

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.24

दिए गए बार ग्राफ में वर्ष 1992 में वर्षा ऋतु के दौरान हुई सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की संख्या दर्शायी गई है। ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें।



कौन-से दो क्रमिक सप्ताहों के बीच मौतों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट आई थी?

1. 30 जून से 7 जुलाई
 2. 7 जुलाई से 14 जुलाई
 3. 21 जुलाई से 28 जुलाई
 4. 28 जुलाई से 4 अगस्त

Question ID : 8161611341

Status : Answered

Chosen Option : 2

mpcareer.in

Q.25 एक आयत का परिमाण 50 cm है। इसके क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात 5 : 1 है। आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए।

- Ans
- 1. 18 cm
 - 2. 20 cm
 - 3. 15 cm
 - 4. 22 cm

Question ID : 8161611321
Status : Answered
Chosen Option : 2

Section : General Awareness

Q.1 जनवरी 2020 त कथ त के अनुसार 'बी.सी.सी.आ (BCCI) क अ कौनथे ?

- Ans
- 1. हषा भोगले
 - 2. सुनील गाव कर
 - 3. र व शा ी
 - 4. सौरव गांगुली

Question ID : 8161611348
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.2 तेरेराइट म म— चुर मा ामपाया जाता है।

- Ans
- 1. फा फोरस
 - 2. पोटे शयम
 - 3. क शय काब नेट
 - 4. आयरऑ साइड

Question ID : 8161611357
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.3 इनम्से कौन सा व का सबसे बड़ा नद प है ?

- Ans
- 1. भवानी प
 - 2. अग प
 - 3. ीरंगम प
 - 4. माजुली प

Question ID : 8161611356
Status : Answered
Chosen Option : 4

Q.4 भारतीय रेलवे रेल कोचफै टरी कसशहरमथत है ?

- Ans
- 1. च रंजन
 - 2. बगलु
 - 3. चे ई
 - 4. कपूरथला

Question ID : 8161611359

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.5 यू नसेफ (UNICEF) क थापना कसवषई थी ?

- Ans
- 1. 1946
 - 2. 1949
 - 3. 1945
 - 4. 1948

Question ID : 8161611361

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.6 फरवरी 2020 क थ त के अनुसार 'लोकसभामकतने सद य रदेश रा य का त न ध व करते ह ?

- Ans
- 1. 80
 - 2. 48
 - 3. 62
 - 4. 39

Question ID : 8161611364

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.7 Flagella are the hair-like structures which act as organelles of locomotion in which of the following organisms?

- Ans
- 1. Bacteria
 - 2. Amoeba
 - 3. Virus
 - 4. Paramecium

Question ID : 8161611354

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.8 'अंतररा ीय ओजोन दवस' कब मनाया जाता है?

- Ans
- 1. 31 अ टूबर
 - 2. 2 अ टूबर
 - 3. 9 अग त
 - 4. 16 सतंबर

Question ID : 8161611349

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.9 जुलाई 2019 म े पत चं यान-2 नामक अंतर यान का वज़न कतना था?

- Ans
- 1. 4.3 टन
 - 2. 2.9 टन
 - 3. 3.3 टन
 - 4. 3.8 टन

Question ID : 8161611350

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.10 जनवरी 2020 त कथ त के अनुसार ' भारत के सबसे युवा शतरंज डमा टर का खताब कसके नाम था?

- 1. रमेशबाबू नानंदा (Rameshbabu Praggnanandhaa)
- 2. प रमाजन्नेगी
- 3. व नाथन आनंद
- 4. डी गुकेश

Question ID : 8161611368
Status : Answered
Chosen Option : 1

Ans

Q.11 'मेखला चादर' (Mekhela Chador) _____ रा य का पारंप रक प रधान है।

- Ans
- 1. असम
 - 2. प म बंगाल
 - 3. पुरा
 - 4. ओ डशा

Question ID : 8161611347
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.12 स चन त लकर ने अपने ____ मैच म अपना पहला एक दवसीय अंतरा ीय (ODI) शतक बनाया था।

Ans  1. 79व

 2. 76व

 3. 78व

 4. 77व

Question ID : 8161611366

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.13 शेरशाह सूरी का मकबरा कहां थत है?

Ans  1. रोहतासगढ़

 2. सासाराम

 3. द ली

 4. चौसा

Question ID : 8161611360

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.14 Who is the author of the book 'Kerala: God's Own Country'?

- 1. Sudha Murthy
- 2. Thakazhi Sivasankara Pillai
- 3. Jeet Thayil
- 4. Shashi Tharoor

Question ID : 8161611362
Status : Answered
Chosen Option : 2

Ans

Q.15 Which of the following is a pension scheme introduced by the Government of India exclusively for senior citizens in May 2017?

- Ans
- 1. PMVVY
 - 2. PMMVY
 - 3. PMGSY
 - 4. PMGAY

Question ID : 8161611352
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.16 कं यूटर श दावली म 'नबल' (Nibble) को _____ भी कहा जाता है।

Ans

- 1. बाइट
- 2. आधा बट (Half bit)
- 3. आधा बाइट (Half byte)
- 4. बट

Question ID : 8161611345

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.17 न न ल खत म से कसे 2019 म प भूषण से स मा नत कया गया? Ans

1. सुनील छे ी

- 2. मोहनलाल व नाथन
- 3. वराट कोहली
- 4. भूपेन हजा रका

Question ID : 8161611363

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.18 Who among the following is the co-founder of Twitter?

- 1. Tim Berners-Lee
- 2. Bill Gates
- 3. Jack Dorsey
- 4. Narayan Murthy

Question ID : 8161611344
Status : Answered
Chosen Option : 4

Ans

Q.19 जनवरी 2020 तक कथ त के अनुसार, YES बक के बंध नदेशक (managing director) कौन ह?

- Ans
- 1. अ मताभ चौधरी
 - 2. आ द य पुरी
 - 3. रवनीत गल
 - 4. अ ंध त भ ाचाय

Question ID : 8161611351
Status : Answered
Chosen Option : 3

Q.20 River Sharavati plunges as which of the following waterfalls?

- Ans
- 1. Soochipara
 - 2. Hogenakkal
 - 3. Athirapally
 - 4. Gerusoppe

Question ID : 8161611358

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.21 न न ल खत म से वह कौन-सा वटा मन है जो जल म घुलनशील है?

- Ans
- 1. वटा मन K
 - 2. वटा मन D
 - 3. वटा मन A
 - 4. वटा मन C

Question ID : 8161611355

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.22 नानल खससे कौनसा मंदर 'चोलसा' या यका ए उदाहरण है?

- 1. ऐरावते र मंदर
- 2. चे ाके शवम दर
- 3. व पा मंदर
- 4. बादामी गुफा मंदर

Question ID : 8161611346

Status : Answered

Chosen Option : 1

Ans

Q.23 जनवरी 2020 तक कथ त के अनुसार, 800 मीटर और 1500 मीटर दोन ंट पधा म रा ीय रकॉड कसके नाम था?

- Ans
- 1. अ यसामी ध ण
 - 2. अ वनाश सेबल
 - 3. मोह मद अनास
 - 4. जी सन जॉनसन

Question ID : 8161611367

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.24 न न ल खससे कौन सा रा य भारतीय सं वधान क छ अनुसूची मशा मलै ?

Ans

- 1. नागालड
- 2. मज़ोरम
- 3. म णपुर
- 4. अ णाचल्लेश

Question ID : 8161611365

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.25 ————— वहनलीहै' जो मू को कडनी से मू ाशयत ले जाती है।

Ans

- 1. संकोचकपेशी (Sphincter)
- 2. महाधमनी(Aorta)
- 3. मू माग (Urethra)
- 4. मू वाहनी (Ureter)

Question ID : 8161611353

Status : Answered

Chosen Option : 4